



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 02] नई दिल्ली, जनवरी 13—जनवरी 19, 2019, शनिवार/पौष 23—पौष 29, 1940

No. 02] NEW DELHI, JANUARY 13—JANUARY 19, 2019, SATURDAY/ PAUSA 23 —PAUSA 29, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2019

का.नि.आ. 02.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, (समूह 'ग' यांत्रिक पद) भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिसे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा स्टाफ मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन में प्रधान मैकेनिक (यांत्रिक और वैद्युत), मैकेनिक (यांत्रिक) और सहायक मैकेनिक (यांत्रिक) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), रक्षा स्टाफ मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, प्रधान मैकेनिक (यांत्रिक और वैद्युत), मैकेनिक (यांत्रिक) और सहायक मैकेनिक (यांत्रिक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .—** ये नियम स्तंभ-1 के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होगी।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरहता .—** वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान मैकेनिक (यांत्रिक और वैद्युत)	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर-5 (रु. 29200-92300)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। टिप्पण : प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति हेतु सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए व्यावसायिक परीक्षण अर्हित करना आवश्यक है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे मैकेनिक (यांत्रिक) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं :

1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक अर्हता ।
2. किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय प्रमाणपत्र ।
3. किसी सुस्थापित इंजीनियरी फर्म या किसी मुद्रण स्थापन में मैकेनिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।
4. मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त मशीनों की (लाइनो या मोनो और कास्टिंग मशीन से भिन्न) यंत्र क्रिया, मरम्मत, उनके अनुरक्षण, संचालन और प्रतिष्ठापन की जानकारी या योग्यता अवश्य होनी चाहिए और तकनीकी साहित्य पढ़ने और समझने तथा अतिरिक्त पुर्जों के नाम लिख सकने की योग्यता होनी चाहिए ।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है

2. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु) तथा संयुक्त बीजलेख ब्यूरो से उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय

- सदस्य

साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. मैकेनिक (यांत्रिक)	3* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (रु. 25500-81100)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। टिप्पण : प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति हेतु सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए व्यावसायिक परीक्षण अर्हित करना आवश्यक है।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : ऐसे सहायक मैकेनिक (यांत्रिक) जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सादृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु) तथा संयुक्त बीजलेख ब्यूरो से उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

<p>वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक अर्हता । 2. किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय प्रमाणपत्र । 3. किसी सुस्थापित इंजीनियरी फर्म या किसी मुद्रण स्थापन में मैकेनिक के रूप में एक वर्ष का अनुभव । 4. मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त मशीनों की (लाइनों या मोनो और कास्टिंग मशीन से भिन्न) यंत्र क्रिया, मरम्मत, उनके अनुरक्षण, संचालन और प्रतिष्ठापन की जानकारी या योग्यता अवश्य होनी चाहिए और तकनीकी साहित्य पढ़ने और समझने तथा अतिरिक्त पुर्जों के नाम लिख सकने की योग्यता होनी चाहिए । <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक मैकेनिक (यांत्रिक)	2* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-2 (रु. 19900-63200)	लागू नहीं होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					<p>टिप्पण:-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक अर्हता।</p> <p>2. मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त मशीनों के अतिरिक्त पुर्जों के नामों का ज्ञान (लाईनो, मोनो और कास्टिंग मशीन से भिन्न)।</p> <p>3. मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त मशीनों की (लाईनो, मोनो और कास्टिंग मशीन से भिन्न) क्रिया विधि और उसके मरम्मत तथा उनके अनुरक्षण की योग्यता होनी चाहिए।</p> <p>टिप्पण : सीधी भर्ती हेतु सभी योग्य अभ्यर्थियों के लिए व्यावसायिक परीक्षण अर्हित करना आवश्यक है।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा :</p> <p>टिप्पण 1 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी।</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 में या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो स्तम्भ-7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता रखता हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय - अध्यक्ष 2. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (वायु) तथा संयुक्त बीजलेख ब्यूरो से उप निदेशक या समतुल्य प्रास्थिति के अधिकारी, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/34001/मुप्रअ/भर्ती-2]

जीतेन्द्र कुमार, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th January, 2019

S.R.O. 02.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations (Group 'C' Mechanical Posts) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' posts of Head Mechanic (Mechanical and Electrical), Mechanic (Mechanical) and Assistant Mechanic (Mechanical) in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisation, under the Ministry of Defence, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Defence Staff Headquarters and Inter Service Organisations, Head Mechanic (Mechanical and Electrical), Mechanic (Mechanical) and Assistant Mechanic (Mechanical), Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicable .**—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** —The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** — No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Class, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Head Mechanic (Mechanical and Electrical)	1 * (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs.29200-92300)	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation. Note : All eligible candidates will be required to qualify in a trade test for the purpose of promotion or deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Mechanic (Mechanical) in Level-4 in the pay matrix with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, if prescribed. Deputation : Officers of the Central Government or State Government or Union territories Administration : (a) (i) holding analogous posts on	Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of :- 1. Deputy Director or Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence. - Chairman 2. Officer of the status of Deputy Director or equivalent each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Air) and Joint Cipher Bureau, Ministry of Defence. - Member	Not applicable.

<p>regular basis; or</p> <p>(ii) with five years' regular service in level-4 in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10th pass from a recognised Board or Institution. 2. Trade Certificate from a recognised Industrial Training Institute. 3. Three years experience as a Mechanic in a well established Engineering firm or a Printing establishment. 4. Must possess knowledge or ability of mechanism, repair, maintenance, operation and installation of machines used in the printing industry (other than Lino or Mono and casting machines) and ability to read and understand technical literature and write names of spare parts. <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Mechanic (Mechanical)	3 * (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25500-81100)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation. Note : All eligible candidates will be required to qualify in a trade test for the purpose of promotion or deputation.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>Assistant Mechanic (Mechanical) in Level-2 in the pay matrix with eight years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government or State Government or Union territories Administration :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with eight years' regular service in level-2 in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the following educational qualifications and experience :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10th pass from a recognised Board or Institution. Trade Certificate from a recognised Industrial Training Institute. One year experience as a Mechanic in a well established Engineering firm or a Printing establishment. Must possess knowledge or ability of mechanism, repair, maintenance, operation and installation of machines used in the printing industry (other than Lino or Mono and casting machines) and ability to read and understand technical literature and write names of spare parts. <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director or Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence - Chairman 2. Officer of the status of Deputy Director or equivalent each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Air) and Joint Cipher Bureau, Ministry of Defence - Member 	Not applicable.

<p>Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Mechanic (Mechanical)	2 * (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs. 19900-63200)	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or union territory of Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>1. 10th pass from a recognised Board or Institution.</p> <p>2. Knowledge of names of spare parts of machines used in printing industry (other than Lino and Mono type and casting machines).</p> <p>3. Knowledge of mechanism of machines used in printing industry (other than Lino and Mono type and casting machines) and ability to attend to their repair and maintenance.</p> <p>Note : All eligible candidates will be required to qualify in a trade test for the purpose of direct recruitment.</p>	Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note 1 : Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central or State Government or Union territories Administration :-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with three years' regular service in level-1 in the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee, consisting of: -</p> <p>1. Deputy Director or Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence. - Chairman</p> <p>2. Officer of the status of Deputy Director or equivalent each from Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Air) and Joint Cipher Bureau, Ministry of Defence. - Member</p>	Not applicable.

[F. No. A/34001/CAO/R-II]
JITENDRA KUMAR, Dy. Chief Administrative Officer